



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ 1947 (श10)

(सं0 पटना 1114) पटना, बुधवार, 18 जून 2025

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

13 मई 2025

सं० 15/खा०-46-13/23-565(15)/स्वा०—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित प्रावधान के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार खाद्य संरक्षा सेवा के अंतर्गत खाद्य संरक्षा संवर्ग के अधीन कार्यरत निम्नांकित खाद्य संरक्षा अधिकारियों को सहायक अभिहित अधिकारी का उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-08) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला	कोटि क्रमांक (2019)	वर्तमान कोटि
1	2	3	4
1	श्री अनिल कुमार, मुंगेर	01	खाद्य संरक्षा अधिकारी
2	श्री मुकेश जी कश्यप, पटना	02	खाद्य संरक्षा अधिकारी
3	श्री नारायण राम, औरंगाबाद	03	खाद्य संरक्षा अधिकारी
4	मो० इकबाल, समस्तीपुर	04	खाद्य संरक्षा अधिकारी
5	श्री तपेश्वरी सिंह, पटना	07	खाद्य संरक्षा अधिकारी
6	श्री अर्जुन प्रसाद, नवादा	08	खाद्य संरक्षा अधिकारी
7	श्री अजय कुमार, नालंदा	09	खाद्य संरक्षा अधिकारी
8	श्री राजेश कुमार, मुंगेर	11	खाद्य संरक्षा अधिकारी
9	श्री अशोक कुमार सिन्हा, पटना	12	खाद्य संरक्षा अधिकारी
10	श्री जितेन्द्र प्रसाद, पटना	13	खाद्य संरक्षा अधिकारी
11	श्री सुदामा चौधरी, जहानाबाद	14	खाद्य संरक्षा अधिकारी

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित शर्तों के अध्याधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक सहायक अभिहित अधिकारी (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-08) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. खाद्य संरक्षा अधिकारी/अभिहित अधिकारी के पदों पर नियमित नियुक्ति या पदस्थापन होने या अगले आदेश तक कार्यहित में उपर्युक्त अधिकारियों को ही खाद्य संरक्षा अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी के पदीय दायित्वों एवं कृत्यों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

5. उपर्युक्त अधिकारियों को योगदान/पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक अभिहित अधिकारी के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
कृष्णा उरॉव,  
सरकार के उप सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1114-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>